

[This question paper contains 4 printed pages]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5564

Unique Paper Code : 2414000038

Name of the Paper : COMPUTERIZED ACCOUNTING SYSTEM

Semester : VI

Duration: 2 Hours

Maximum Marks: 60

Instructions for Candidates:

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all questions.
3. Part of the questions to be attempted together.
4. Marks distribution is mentioned against each question.

Question 1

(A) Explain the different types of accounts and the rules of debit and credit for each type of account. (7)

(B) Define the term accounting and discuss its meaning, objectives, and importance for business organisations. (8)

OR

(A) Explain various sources of accounting information. Evaluate their usefulness for different stakeholders. (7)

(B) Explain the accounting terms Assets, Liabilities, Capital, Income, Expenditure, and Revenue with suitable examples. (8)

Question 2

(A) Explain the double-entry bookkeeping system. How does it ensure accuracy and reliability in accounting records? (7)

(B) How the Trial Balance is being prepared. What are its significance and limitations? (8)

OR

(A) Explain the accounting equation approach to recording business transactions. How does it reflect the financial position of a business? (7)

(B) Explain the concept and features of computerised accounting systems. How do they differ from manual accounting systems? (8)

Question 3

(A) Explain the steps and commands involved in creating stock items, stock groups, and units of measurement in accounting software Tally. (8)

(B) Explain different types of vouchers used in computerised accounting systems. How are they used for recording transactions? (7)

OR

(A) Explain the difference between single and multiple ledger creation methods. Explain the steps and commands involved in creating single and multiple ledgers in the accounting software. (8)

(B) Explain the procedures for editing, deleting, and printing vouchers. Why are these controls important in accounting systems? (7)

Question 4

(A) Discuss the procedures involved in creating, selecting, shutting and deleting a company in accounting software. (7)

(B) What is Good and Service Tax (GST)? Explain the process for accounting Good and Service Tax in the Accounting Software. (8)

OR

(A) Explain the process of procurement and installation of computerised accounting software Tally in an organisation. (7)

(B) Explain the process of generating financial reports of Cash Book, Ledger Accounts, Trial Balance, and Profit and Loss Account in Tally software. (8)

प्रश्न 1

(A) विभिन्न प्रकार के खातों और प्रत्येक प्रकार के खाते के डेबिट और क्रेडिट नियमों की व्याख्या कीजिए। (7)

(B) लेखांकन शब्द को परिभाषित कीजिए और व्यावसायिक संगठनों के लिए इसके अर्थ, उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए। (8)

या

(A) लेखांकन सूचना के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न हितधारकों के लिए उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। (7)

(B) लेखांकन शब्दों - परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ, पूंजी, आय, व्यय और राजस्व - को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। (8)

प्रश्न 2

(A) दोहरी प्रविष्टि बहीखाता प्रणाली की व्याख्या कीजिए। यह लेखांकन अभिलेखों में सटीकता और विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित करती है? (7)

(B) ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है? इसका महत्व और सीमाएँ क्या हैं? (8)

या

(A) व्यावसायिक लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन समीकरण दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यह किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को कैसे दर्शाता है? (7)

(B) कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणालियों की अवधारणा और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वे मैन्युअल लेखांकन प्रणालियों से किस प्रकार भिन्न हैं? (8)

प्रश्न 3

(A) टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और माप की इकाइयों को बनाने में शामिल चरणों और कमांड्स को समझाइए। (8)

(B) कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाउचरों को समझाइए। इनका उपयोग लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए कैसे किया जाता है? (7)

या

(A) एकल और एकाधिक खाता बही बनाने की विधियों में अंतर समझाइए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एकल और एकाधिक खाता बही बनाने में शामिल चरणों और कमांड्स को समझाइए। (8)

(B) वाउचरों को संपादित करने, हटाने और प्रिंट करने की प्रक्रियाओं को समझाइए। लेखा प्रणाली में ये नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण हैं? (7)

प्रश्न 4

(A) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी को बनाने, चुनने, बंद करने और हटाने में शामिल प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। (7)

(B) वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वस्तु एवं सेवा कर की गणना करने की प्रक्रिया को समझाइए। (8)

या

(A) किसी संगठन में कम्प्यूटरीकृत लेखा सॉफ्टवेयर टैली की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया को समझाइए। (7)

(ख) टैली सॉफ्टवेयर में कैश बुक, लेजर खाते, ट्रायल बैलेंस और लाभ-हानि खाते की वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया समझाइए। (8)